

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 अगस्त 2010—श्रावण 28, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. बी-11-5-2010-चौदह-2.— भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये संलग्न सूची के अनुसार नवीन पटवारी हल्काबंदी जिला देवास की संशोधित सूची उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010-11 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार
पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

जिला देवास

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				मौसम खरीफ					
(1)	(2)	(3)	(4)	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
मंदसौर	वृत्त मंदसौर	1	मून्डाहेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	जवासिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	सुनवानीगोपाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	सुतली	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
मंदसौर	वृत्त मंदसौर	5	दतोत्तर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	पथमुन्डला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	सागुखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	रामगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	हेबतपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	भैसुनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	बरखेड़ाकायम	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	मांगरोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	लसुडियासोंडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	अकाल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	रालामण्डल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	सोन्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	कवडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	आगरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		19	उपडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		20	बगाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	बिजेपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		22	टिकरियासाँचा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		23	लिम्बोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	लसुडियाछत्रधार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		25	बांगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	सिंगावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	बेरागढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	देवर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	ऑट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	सिरोन्ज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		31	पुवाल्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	अचलूखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	नामूखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	चन्दाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		35	लोहारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		36	रूपाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		37	गदर्ईषापिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		38	बावड़िया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		39	देवास सीनियर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		40	देवास जूनियर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		41	बिलावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		42	ईटावा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		43	खजूरियाजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		44	निपानिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		45	अजीजखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		46	पटलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		47	मेढकी धाकड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		48	छोटा मालसापुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		49	सिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		50	अमरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		51	आनन्दपुरगुंगरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		52	खटाम्बा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		53	जामगोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
देवास	वृत्त-2, देवास	54	लोहारपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		55	क्षिप्रा शुक्ल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		56	सुनवानी महाकाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		57	बालगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		58	नागदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		59	टिगरिया छोटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		60	कुमारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		61	छापरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		62	भाडन्नपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		63	बागरदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		64	गुराडिया भील	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		65	भानगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		66	बालोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		67	बरखेड़ा कोतापाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		68	राजोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		69	गुर्जर बापच्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		70	कानकुन्ड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		71	ऑक्का	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		72	नापाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		73	ऑक्क्या पिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		74	खोकरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		75	जलोदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		76	बड़ीचुरलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		77	बरोठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		78	सिरोल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		79	सदाशिवपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		80	खतेड़िया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		81	भाटखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		82	पत्थर गुश्राडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		83	मोरूखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		84	केलोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		85	टिमरनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		86	टिगरिया गोगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		87	सुनवानी कराड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		88	पटाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		89	टिनोमिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		90	सन्नौड	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		91	नारियाखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		92	मरेठिया सुतारखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		93	पटाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		94	पवर्तपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		95	सारोल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		96	बारोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		97	राघोगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		98	चौबापिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		99	बराय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		100	दखनाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		101	अखेपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		102	मिर्जापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		103	अकबरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-

तहसील-टोंकखुर्द

टोंकखुर्द	वृत्त-1, टोंकखुर्द	1	डिंगरोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	दोन्ता जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	आलरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	पिपल्या सड़क	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	बरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	जवासिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	रतनखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	रन्धनखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	चिडावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	भैरावाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	धतुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	टोंकखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		22	हरनावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		23	टोंककला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	पोलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		25	फतनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	कलमा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	नावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	राबड़िया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	फतेहपुरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	नान्देल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		31	संवरसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	बुदासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	कनेहेरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	जीरवाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		35	पान्डी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
टोंकखुर्द	वृत्त-2, चौबाराधीरा	4	खरेली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		5	लसुडिया अमली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		6	खेडामाधौपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		7	आगरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		8	पान्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		9	कराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		10	पाडल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		19	गोरवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		20	मुन्डलादेव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		36	देवगुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		37	सालमखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		38	देवली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		39	रणायलकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		40	जनोलीखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		41	विजयगढ़ मुरन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		42	सेकली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		43	अमोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		44	बरदू	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		45	जमोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		46	सेन्दु	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		47	जमोनीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		48	गुराडिया सुरदास	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		49	भीलखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		50	बालोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		51	लसुडिया ब्राह्मण	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		52	मुन्डलादांगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		53	तीन्दुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		54	इकलेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		55	कल्लुखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		56	नागपचलाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		57	खेड़ीराजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		58	भूतियाबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		59	चाबाराधीरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		60	जिवाजीगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
		तहसील सोनकच्छ									
		सोनकच्छ	वृत्त-1, भौरासा	31	बीसाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				32	मनासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				33	ऐनाबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				34	भूतियाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				35	ढाबलाजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				36	जलोदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				37	कुमारियाराव	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सोनकच्छ	वृत्त-1, भौरासा	38	रोलुपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		39	सादीखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		40	भलाईखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		41	कुलाला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		42	भौरासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		43	कांकडदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		44	बोलासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		45	बुधनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		46	खोनपिर पिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		47	फावडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		48	सरसोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		49	डकाच्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		50	पान्दा जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		51	पालाय जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		52	जगदीशपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		53	बावई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		54	ओड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		55	सांवेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		56	सोनकच्छ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		57	भगसरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		58	जलेरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		59	पिपल्दा वक्सु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		60	भूतियाभाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		61	जामोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		62	अगोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		63	लालाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		64	दौलतपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		65	पारदीखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		66	चौबारा जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
67	मुन्डलांआना	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
68	जामली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
69	चान्दाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
सोनकच्छ	वृत्त-2, सोनकच्छ	1	पिपलरांवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	घटियाकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	पिरपाडल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	मुरम्यो	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		5	घन्घेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	घिचलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	निपानिया हुरहुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	लकुमडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	जोलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	खूटखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सोनकच्छ	वृत्त-2, सोनकच्छ	11	पटाडिया नजदीक	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	कुमारिया बनवीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	खोरिया जागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	टुमनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	रजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	गढ़खजुरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	जामगोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	छायनमुना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		19	तालौद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		20	कचनारिया इकलेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	बैराखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		22	पटाडियाताज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		23	देहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	गन्धर्वपुरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		25	गुराडियाकाच्छी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	हरनावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	दुधलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	खजुरियाकंका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	लोनदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	धतुरियाराम	-	-	सोयाबीन	-	-	-

तहसील हाटपिपल्या

हाटपिपल्या	वृत्त-1, हाटपिपल्या	1	शिवपुरमुन्डला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	बेरखेड़ा पूर्वया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	घटियागयासुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	पुनासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		5	रोजडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	नेवरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	मानकुन्ड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	हैदरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	सेमलीबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	देवगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	हाथीगुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	मेडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	मनापिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	फान्गटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	बडियामान्डु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	बामनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	गोला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	आमलाताज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		19	नानूखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		20	खोकरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	गुसट	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
हाटपिपल्या	वृत्त-1,	22	टप्पा सुकल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	हाटपिपल्या	23	बारोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	भीलआमला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		25	डिंगरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	डिंगोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	कवडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	कान्जर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	लसुडियाहातु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	पितवली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		31	खजुरियाबीना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	हाटपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	लिम्बोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	अंरलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		35	महुखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		36	मनासा (करनावद)	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		37	बावलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		38	देहरियासाहू	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		39	सादीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		40	चौंसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			तहसील बागली						
बागली	वृत्त-2, बागली	1	छिकडाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		2	बरखेडासोमा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		3	करनावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		4	भमोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		5	इकलेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		6	बिजूखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		7	चापडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		8	अमरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		9	पिपल्याजान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		10	मातमोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		11	बिलावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		12	इस्माईलखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		13	सामगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		14	कमलापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		15	गोपीपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		16	खेड़ाखाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		17	करोन्दिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		18	आगुर्ली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		19	पोलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		20	बेडामहु	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		21	चारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		22	आवलदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		23	नयापुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		24	छतरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
बागली	वृत्त-2, बागली	25	लखवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		26	गुराडियाकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		27	मुकुन्दगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		28	बेहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		29	धावडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		30	गुवाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		31	चारबडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		32	अम्बापानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		33	सेवन्याखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		34	बागली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		35	जटाशंकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		36	डांगराखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		37	बरछाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		बागली	वृत्त-3, उदयनगर	38	सोबल्यापुरा	-	-	सोयाबीन	-
39	पूजापुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
40	पलासी			-	-	सोयाबीन	-	-	-
41	रूपलीपुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
42	बोरखाल्या			-	-	सोयाबीन	-	-	-
43	पोष्टीपुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
44	बोरपडाव			-	-	सोयाबीन	-	-	-
45	पारसपिपली			-	-	सोयाबीन	-	-	-
46	चन्द्रपुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
47	करडी			-	-	सोयाबीन	-	-	-
48	मानसिंगपुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
49	भीकुपुरा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
50	रातातलाई			-	-	सोयाबीन	-	-	-
51	निमखेड़ा			-	-	सोयाबीन	-	-	-
52	पानकुवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
53	आगराखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
54	सिवनपानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
55	मगरादेह	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
56	पटाडीपाला	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
57	देवनलीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
58	महीगाँव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
59	कनाड	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
60	सीतापुरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
61	आनन्दनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
62	बीसाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
63	पाण्डुतालाब	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
64	श्यामपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
65	पिपल्या लोहार	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
66	मिर्जापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
67	ईमलीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
68	हिरापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
बागली वृत्त-3, उदयनगर	69	उदयपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	70	रामपुरा पटपड़ी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	71	किशनगढ़	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	72	पिपलपाटी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	73	पोलाखाल	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	74	निमनपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	75	पिपरी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	76	पोटला	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	77	धारड़ी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	78	देवझिरी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	79	गुराडदा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	80	रतनपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	81	बावड़ीखेड़ा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	तहसील सतवास								
सतवास वृत्त-1, सतवास	1	बोरानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	2	सुन्देल	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	3	बधावा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	4	हिरापुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	5	देहरी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	6	जिनवानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	7	भायली	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	8	जानसूर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	9	नयापुरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	10	लेखकी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	11	भैंसून	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	12	डांगराखेड़ा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	13	कोठडी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	14	मोहईजागीर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	15	बामनी बुजुर्ग	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	16	पालासी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	17	लोहादा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	18	कांटाफोड़	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	19	गोदना	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	20	बेरागढ़	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	21	सिंगलादेह	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	22	सूरमन्या	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	23	इकलेरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	24	बेडगाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	25	सलामतपुरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	26	खल	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	27	रहमानपुरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	28	डाबरीबुजुर्ग	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	29	सतवास	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	30	अतवास	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	31	पांगरी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	32	गरडीछाबरीयाँ	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
सतवास वृत्त-1, सतवास	33	खिरोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	34	बडकन्दखारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	35	बडौदामाफ़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	36	बाल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	37	सिन्दरानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	38	निमासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	39	गाढ़ागाँव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	40	गोलागुठान	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	41	बीचकुआँ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	42	भण्डारियाँ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	43	टिपरास	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	44	नामनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	45	बाईजगवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	46	भामर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	47	धासड़	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	48	पोखरखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	49	निमलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	50	खारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
	तहसील कन्नौद									
	कन्नौद वृत्त-1, कन्नौद	1	खोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
2		पानीगाँव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
3		बिजवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
4		हतनोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
5		महुडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
6		बावड़ीखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
7		थूरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
8		किलोदा बी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
9		बागनखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
10		अड्डानीया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
11		कुसमानिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
12		जाँगठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
13		सिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
14		नान्दोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
15		भीलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
16		काटकूट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
17		शेरगोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
18		हतलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
19		सोनकखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
20		पीपल्दा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
21		ननासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
22		बहीरावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
23		कन्नौद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
24		कलवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
25		चपलासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
26		रतवाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
27		डोकाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	
28		गुडवेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
कन्नौद वृत्त-1, कन्नौद	29	पानगरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	30	डेहरीया	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	31	बामनीखुर्द	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	32	अम्बाड़ा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	33	खारपा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	34	रायपुरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	35	सुरानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	36	किलोदा पी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	37	पिपलकोटा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	38	कोथमीर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	39	बुरूट	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	40	पिपलानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
	तहसील खातेगांव									
	खातेगांव वृत्त-1, हरणगांव	1	औंकारा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-
2		ककडदी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
3		विक्रमपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
4		सागोनिया	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
5		आमला	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
6		मनोरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
7		पटरानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
8		लकडानी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
9		निवारदी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
10		मचवास	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
11		पलासी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
12		हरणगाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
13		गनोरा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
14		अमेली	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
15		सुलगाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
16		बंडी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
17		किशनपुर	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
18		लिली	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
19		ओलम्बा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
20		सुकरास	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
21		सोमगाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
22		सुकरडी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
23		रिछी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
24		सन्नौड़	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
25		तिवडिया	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
26		पुरोनी	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
27		जियागाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
28		कांकरिया	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
29		देवला	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
30		बचखाल	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
31		खल	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
32		खारदा	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
33		दिपगाँव	-	-	-	सोयाबीन	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
खातेगांव	वृत्त-1, हरणगांव	34	गुजलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		36	बडदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		39	चन्दवाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		40	डिडाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
खातेगांव	वृत्त-2, खातेगांव	35	सन्दलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		37	खातेगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		38	पाड्यादेह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		41	बरवाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		42	भटासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		43	कमलासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		44	कायली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		45	अजनास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		46	मालसमोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		47	उमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		48	कॉजीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		49	दूधवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		50	मेलपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		51	मिर्जापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		52	कणाबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		53	खुडगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		54	राजौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		55	वागदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		56	भीलखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		57	सावट्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		58	बरछबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		59	सवांसडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		60	बजवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		61	लवरास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		62	जानेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		63	नेमावर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		64	मुरझाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		65	कुराडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
66	पिपल्या जानकार	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
67	सोनागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
68	इकलेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
69	बिजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
70	धंकदयाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
71	नवलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
72	बिजलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
73	कोलारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
74	खिडक्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भटौरिया, उपसचिव.